



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3993]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2018/आश्विन 16, 1940

No. 3993]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2018/ASVINA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2018

का. आ. 5178(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग' भोपाल जोकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित आयोग है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा अधिसूचित करती है जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) याचिका शुल्क के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) जुर्माना तथा प्रभारों के रूप में प्राप्त राशि;
- (ग) टेंडर दस्तावेजों की बिक्री, संसाधन शुल्क, प्रमाणित प्रतिलिपि शुल्क, पुराने समाचारपत्रों का विक्रय, लाइसेंस शुल्क, टैरिफ पुस्तकों के वितरण, गाड़ी का किराया, स्टाफ के ऋणों पर ब्याज से प्राप्त अन्य अनुषंगिक आय, और
- (घ) उपर्युक्त (क) से (ग) पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग' भोपाल,-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 64/2018/ फा. सं. 300196/56/2018-आईटीए-1]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2018

S.O. 5178(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission', Bhopal, a Commission constituted by the State Government of Madhya Pradesh, in respect of the following specified income arising to the said Commission, namely:--

- (a) Amount received as petition fees;
 - (b) Amount received as fines and charges;
 - (c) Other incidental income received from sale of tender documents, processing fees, certified copying fees, sale of old newspapers, license fee, distribution of Tariff book, vehicle rent, interest on loans to staff; and
 - (d) Interest earned on (a) to (c) above.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, Bhopal,-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall apply with respect to the assessment year 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-25.

[Notification No. 64/2018/ F.No.300196/56/2018-ITA-I]

VINAY SHEEL GAUTAM, Under Secy.